



अस्पताल बाह्यरोगियों के लिए सुविधा शुल्क

यदि आपको अस्पताल बाह्यरोगी के रूप में सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, तो आपसे और/या आपकी बीमा कंपनी से, चिकित्सक शुल्क के अतिरिक्त, सुविधा शुल्क लिया जा सकता है। **सुविधा शुल्क**, जिसे तकनीकी शुल्क भी कहा जाता है, आपकी विज़िट से जुड़े अस्पताल के श्रम और गैर-श्रम (परिचालन) खर्चों को कवर करने के लिए लिया जाता है।

चिकित्सक शुल्क, जिसे पेशेवर शुल्क भी कहा जाता है, चिकित्सक या आपकी विज़िट के दौरान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी अन्य चिकित्सा पेशेवर के श्रम खर्च को कवर करने के लिए लिया जाता है। यदि यही सेवाएं चिकित्सक के कार्यालय में प्रदान की जातीं, तो आपसे और/या आपकी बीमा कंपनी से चिकित्सक शुल्क लिया गया होता जिसमें चिकित्सक के कार्यालय के श्रम और गैर-श्रम (परिचालन) खर्च, और चिकित्सक या आपकी विज़िट के दौरान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी अन्य चिकित्सा पेशेवर का श्रम खर्च, दोनों शामिल होते। सब कुछ शामिल करने वाला चिकित्सक के कार्यालय का यह चिकित्सक शुल्क, अस्पताल बाह्यरोगी के रूप में प्राप्त सेवाओं के लिए अलग सुविधा शुल्क और चिकित्सक शुल्क के संयोजन से कम होता।

Medicare के लिए आवश्यक है कि अस्पताल बाह्यरोगियों की सेवाओं के लिए, अस्पताल अलग से सुविधा और चिकित्सक शुल्क लें। तुलना के उद्देश्य के लिए, Medicare Hartford HealthCare Hospitals (हार्टफोर्ड हेल्थकेयर हॉस्पिटल्स) को उनके सुविधा शुल्क के लिए निम्न श्रेणियों में अदायगी प्रदान करती है: Hartford Hospital \$54.45-\$136.13, Windham Hospital \$55.56-\$138.91, Backus Hospital \$55.56-\$138.91, Charlotte Hungerford Hospital \$54.45-\$136.13, Hospital of Central Connecticut \$54.60-\$136.49, MidState Medical Center \$55.56-\$138.91 and St. Vincent's Medical Center \$57.50-\$143.75.

आपकी बीमा कंपनी आपको अस्पताल बाह्यरोगियों के लिए Hartford HealthCare Hospitals (हार्टफोर्ड हेल्थकेयर हॉस्पिटल्स) को की गई अदायगी के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम होगी।



यदि आप सुविधा शुल्क के अपने हिस्से या अपने बिल के अन्य किसी भी हिस्से का भुगतान करने में असमर्थ हैं, तो कृपया कटौती के लिए अनुरोध करने या वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने के लिए **1-860-696-6010** पर संपर्क करें।

यह अनुपात हमारे कुल परिचालन खर्च की तुलना में हमारे सकल राजस्व को दर्शाता है। बजट वर्ष 2021 के लिए प्रत्येक निकाय अलग और परिवर्तनशील है, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

बजट वर्ष 2021 के लिए लागत बनाम शुल्क का अनुपात

Hartford Hospital	36%
Hospital of Central Connecticut	32%
MidState Medical Center	35%
William Backus Hospital	32%
Windham Hospital	37%
Charlotte Hungerford Hospital	36%
St. Vincent's Medical Center	34%
Hartford HealthCare at Home	85%